

थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा सट्टा की खाई बाडी एवं नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 340 ग्राम नशीला पदार्थ (चरस), पर्चा सट्टा व सट्टे में दांव पर लगी नकदी बरामद ।

पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लांगे के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जनपद अमरोहा में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध जनपद में चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी धनौरा के निकट पर्यवेक्षण में थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा सट्टा की खाई बाडी एवं नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 340 ग्राम नशीला पदार्थ (चरस), पर्चा सट्टा व सट्टे में दांव पर लगी नकदी बरामद हुई ।

**संक्षिप्त विवरण:-** अवगत कराना है कि कल दिनांक 05/06.09.22 की रात्रि थाना मण्डी धनौरा पुलिस द्वारा सट्टा की खाई बाडी की सूचना पर मंडी समीति के आगे मौ0 सुभाष नगर में अपने घर के अन्दर अपने साथियों के साथ मिलकर सट्टा की खाईबाडी करा रहे अभियुक्त अबरार पुत्र मुस्ताक नि0 मौ0 सुभाष नगर कस्बा व थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया जिसके साथ सट्टा की खाईबाडी कर रहे 02 अन्य साथी मौके से फरार हो गये । गिरफ्तार अभियुक्त अबरार के कब्जे से पर्चा सट्टा, पेन, गत्ता, सट्टे में दांव पर लगी 860/- रुपये नकदी व 340 ग्राम नशीला पदार्थ (चरस) बरामद हुआ । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मंडी धनौरा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये । फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है ।

पुछताछ पर अभियुक्त अबरार द्वारा आर्थिक लाभ लेने हेतु अपने घर में सट्टा की खाईबाडी करने व नशीले पदार्थ चरस की तस्करी करना बताया गया । थाना मण्डी धनौरा पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा



## गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. अबरार पुत्र मुस्ताक नि० मौ० सुभाष नगर कस्बा व थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा ।

## बरामदगी:-

1. पर्चे सट्टा, पेन एवं 860 रूपये नगदी ।
2. 340 ग्राम नशीला पदार्थ चरस ।

## अपराधिक इतिहास अभियुक्त अबरार:-

1. मु०अ०सं० 134/18 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना मण्डी धनौरा अमरोहा ।
2. मु०अ०सं० 301/2022 धारा ३/४ जुआ अधि० (सट्टा) थाना मण्डी धनौरा अमरोहा ।
3. मु०अ०सं० 302/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी धनौरा अमरोहा ।

## पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रेमपाल सिंह थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा ।
2. उ०नि० श्री रामप्रकाश तिवारी थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा ।
3. का० 540 अनुज कुमार थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा ।
4. का० 91 कुलदीप कुमार थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा ।

**PRO CELL AMROHA**